



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1144]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2007/भाद्र 28, 1929

No. 1144]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2007/BHADRA 28, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध, एवं होम्योपैथी विभाग)(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani,
Siddha and Homoeopathy)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2007

New Delhi, the 19th September, 2007

का.आ. 1574(अ).—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

S.O. 1574(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

उक्त द्वितीय अनुसूची में, पंजाब से संबंधित मद 30ख और इससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

In the said Second Schedule, after item 30B relating to PUNJAB and the entries thereto, the following items and entries shall be inserted, namely :—

“छत्तीसगढ़ :

“Chhatisgarh :

1	2	3	4
31. पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.एच. एम.एस.	जून, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक”

1	2	3	4
31. Pt. Ravi Shankar Shukla Vishwavidyalaya, Raipur, Chhatisgarh	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery	B.H.M.S.	From June, 2006 to December, 2008.”

[सं. आर.-13040/34/07-होम्यो.]

[No. R.-13040/34/07-Homoeo]

शिव बसंत, संयुक्त सचिव

SHIV BASANT, Jt. Secy.

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 1, में सं. का.आ. 76 द्वारा तारीख 20 दिसम्बर, 1973, को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 928 द्वारा तारीख 31 मई, 2007 को किया गया था।

Footnote:— The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 1, vide No. S.O. 76 dated 20th December, 1973 and last amended vide No. S.O. 928 dated 31st May, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2007

का.आ. 1575(अ).—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम द्वितीय अनुसूची में, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु से संबंधित क्रम सं. 13अ के सामने कॉलम 2, 3 और 4 में वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
	“बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.एच. एम.एस.	9-05-2007 से आगे”

[सं. आ. 13040/43/07-एचडी (तक.)]

शिव बसंत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 1, में सं. का. आ. 76 द्वारा तारीख 20 दिसम्बर, 1973, को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 928 द्वारा तारीख 31 मई, 2007 को किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2007

S.O. 1575(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :

In the said Second Schedule of the said Act against serial number 13J relating to Vinayak Mission University, Salem, Tamil Nadu, after the existing entries in columns 2, 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
	“Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery	B.H.M.S.	From 9-05-2007 onwards”.

[No. R.-13040/34/07 HD(Tech)]

SHIV BASANT, Jt. Secy.

Footnote:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 1, vide No. S.O. 76 dated 20th December, 1973 and last amended vide No. S.O. 928 (E) dated 31st May, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2007

का.आ. 1576(अ).—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, क्रम सं. 12ग(ख) में प्रविष्टियों के पश्चात् “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत स्तम्भ सं. 2, 3 और 4 में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
“डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी-पेडिएट्रिक्स	एम.डी. (होम्यो.) (पेडिएट्रिक्स)	2006 से आगे	
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	एम.डी. (होम्यो.) (प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन)	2006 से आगे”।	

[सं. आ. 13040/3/07-एच डी]

वर्गीज सैम्युअल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 1, में सं. का.आ. 76 द्वारा तारीख 20 दिसम्बर, 1973, द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन सं. का.आ. 1890(अ) तारीख 26 अक्टूबर, 2006 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2007

S.O. 1576(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Second Schedule of the said Act against serial number 12C(b) relating to Maharashtra, after the entries on columns 2, 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
“Doctor of Medicine in Homoeopathy - Paediatrics	M.D. (Hom.) (Paediatrics)	From 2006 onwards	
Doctor of Medicine in Homoeopathy - Practice of Medicine	M.D. (Hom.) (Practice of Medicine)	From 2006 onwards”	

[No. R.13040/3/2006-HD]

VERGHESE SAMUEL, Jt. Secy.

Footnote:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 1, vide No. S.O. 76 dated 20th December, 1973 and last amended vide No. S.O. 1890(E) dated 26th October, 2006.